



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2006 (आश्विन 15, 1928)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2006 (ASVINA 15, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

सं. 487, दिनांक 6 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (74) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक डॉ. (श्रीमती) किरण चड्ढा को 18,400—22,400/- रु. के वेतनमान में दिनांक 21 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से उनके पाँच वर्ष के कार्यकाल में से शेष अवधि के लिए अर्थात् 3 जुलाई, 2007 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री बी. मदन मोहन रेड्डी को 29 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से मंत्री द्वारा पद त्यागने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000—15,200/- रुपए के वेतनमान में अनंतिम आधार पर रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी में शामिल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पी. एल. जलवा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अगस्त, 2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/8/2006—सीएस.1 के संदर्भ में 21 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी

मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :—

2. उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में बरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

वी. सरस्वती
उप सचिव

वायु सेना

सं. 488, दिनांक 12 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना

पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर उदय प्रताप सिंह (27948), प्रवीण दिक्षित (27950), अमित अमरनाथ धोपावकर (27951), बी विजयराघवन (27952), अविनाश भारद्वाज (27953), चेतन शर्मा (27954), सौरभ रघुवंशी (27955), अरूण कुमार सिंह (27956), प्रवीण एस सारथी (27957), कुणाल कुमरा (27958), पवार निशांत शंताराम (27959), भास्कर आरूणी (27960), अनिल यादव (27961), सुरेश धीर (27962), मुरलीधरन चारु धत्तन (27963), शैलेन्द्र कुमार सिंह (27964), कपिल राजपूत (27965), साहिल (27966), जगदीप सिंह (27967), एन. अभिषेक (27968), अरूण देशवाल (27969), यासिर फारूकी (27970), अक्षय कुमार विज (27971), शैलेन्द्र सिंह (27972), विनय कुमार (27973), मनीष उमेश शर्मा (27975), मनीष कुमार सिंह (27976), नवीन कुमार तिवारी (27977), गुरिन्द्र कुमार (27978), संतोष कुमार मिश्रा (27979), महिवाल सिंह सागवान (27980), अभिनंदन वर्तमान (27981), अमित शर्मा (27982), शिशिर अरोड़ा (27983), सुघष पर्ल हाद्रो गोरे (27985), गौरव चतुर्वेदी (27986), वरूण सिंह (27987), विभूदत्ता एस. के. जेनामानी (27988), आशीष कुमार डोगरा (27989), क्षोत्रीमायुम श्यामानंदा सिंह (27990), विवेक मित्तल (27991), रोहित राय (27992), राहुल शर्मा (27993), एस. श्री विगनेश (27994), करण अरहा (27995), आदित्य सिंह पवार (27996), अंकुर डगर (27997), जसप्रीत सिंह संधू (27998), अरविंद कुमार रोप्सवाल (27999), अंकुर सक्सेना (28000), अभिमन्यु सिंह (28002), नितिन नागरकोटि (28003), अविनाश महापात्रा (28004), अमित रंजन (28005), सिधार्थ अग्रवाल (28006), राद्र चट्टोपाध्याय (28007), हर्षित सिन्हा (28009), दिवेश पंकज (28010), टी. जे. रंजित (28011), यक्षेन्द्र सिंह पनवार (28012), संदीप कुमार प्रधान (28013), जन्मजीत सिंह विधी (28015), अमित विकास मालपुरे (28016), लक्ष्यवीर (28017), अभिमन्यु सिंह (28019), अंशुल दत्ते (28022), रजत देवेन्द्र गुप्ता (28024), खैरनार महेश प्रदीप (28026), समीप निनहवन (28028), प्रमोद कुमार एन (28029), शरद सिरौही (28030), राहुल वर्मा (28031), जसमीत सिंह (28032), सुशील कुमार यादव (28034), राजीव कुमार डोगरा (28035), आर चीट कपूर (28036), दिनांक 19 जून 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव

विंग कमांडर, जे. डी. पी. ओ.

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 489, दिनांक 7 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-641713एक्स), 6 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जेसी-215485पी), 1 सितम्बर 1997 -

नायब सूबेदार ए रवीन्द्रन् (जेसी-641945डब्ल्यू), 1 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सिन्दे सुधाकर रंग राव (जेसी-641958एन), 1 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार अनूप कुमार (जेसी-642095के), 27 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र शर्मा (जेसी-642097पी), 23 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जयबीर सिंह (जेसी-642098एक्स), 02 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहन दासन जी (जेसी-642279एच), 6 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश प्रताप सिंह (जेसी-642109वाई), 13 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुधविन्दर सिंह (जेसी-642110एन), 6 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रवीन्द्रन एम के (जेसी-642112वाई), 06 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-642173डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार चन्द्रामनी मोहापत्रा (जेसी-642175एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजीन्द्र सिंह (जेसी-642176के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रोमेश लाल (जेसी-642179एक्स), 07 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-642297एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार योगेन्द्रा सिंह (जेसी-642101एम), 06 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमेश प्रसाद सिंह (जेसी-642102पी), 09 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्यासदेव पाधी (जेसी-642106एल), 18 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमेश प्रसाद (जेसी-642107एन), 10 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गणेश बहादुर लामा (जेसी-642113एफ), 09 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम दास (जेसी-642178पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जेसी-642181पी), 07 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार कैरी (जेसी-642294एक्स), 05 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुजान सिंह (जेसी-642283एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रमेशन टी के (जेसी-642086एच), 18 अप्रैल 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 6 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-642284एन), 29 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-642281ए), 07 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नफे सिंह (जेसी-642295ए), 14 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 1 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री भगवान सिंह (जेसी-641695ए), 01 अगस्त 2004

सूबेदार लिपिक : जी डी/ एस डी

नायब सूबेदार तरून कुमार चटर्जी (जेसी-641509वाई), 06 अप्रैल 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 6 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-642392एक्स), 30 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मेहर चन्द (जेसी-642394एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार चंचल कुमार घोष (जेसी-642395एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बलदेव शर्मा (जेसी-642393ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-642397डब्ल्यू), 10 अप्रैल 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-642872एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार नन्द कुमार सिंह (जेसी-642815ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार निगार कुरशी (जेसी-642813पी), 01 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वचित्र सिंह (जेसी-642818एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार हृदय चन्द्रा बेहरा (जेसी-642819डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार उन्निकृष्ण अरिनल (जेसी-642820एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-642821एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार विजय कुमार पान्डे (सं. 6648893वाई अब जेसी-663759ए), 01 मई 1995

हवलदार प्रदीप साकिया (सं. 6376560के अब जेसी-663897एफ), 28 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार भिशन सिंह (सं. 6379948ए अब जेसी-663898के), 21 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार इन्द्र पाल (सं. 6383300एफ अब जेसी-663899एम), 21 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राजा शेखरन पिल्लै (सं. 6383308एन अब जेसी-663900डब्ल्यू), 21 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 6384636एन अब जेसी-663901वाई),
26 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम विशुन सिंह (सं. 6384381वाई अब जेसी-663902एफ),
01 जनवरी 2006

हवलदार बसन्त बल्लभ (सं. 6385446एन अब जेसी-663903के),
27 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एम आर क्रिश्ना मूर्ति (सं. 6386030एच अब जेसी-
663904एम), 24 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शैयद भैरु अली (सं. 6383390एन अब जेसी-663905पी),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मुरालीधरन बी (सं. 6384997एम अब जेसी-663906एक्स),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 6385800एक्स अब जेसी-663907ए),
22 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 6385847एच अब जेसी-663908एच),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 6384181एच अब जेसी-663909एल),
22 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 6385341के अब जेसी-663910ए),
02 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार यकले शिवाजी गोविन्द (सं. 6382926एम अब जेसी-
663911एच), 25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्रा कुमार पट्टा (सं. 6385447डब्ल्यू अब जेसी-
663912एल), 23 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार भारगन्डे दिलिप भिवान (सं. 6385510ए अब
जेसी-663913एन), 01 मार्च 2006

हवलदार अरून कुमार तिवारी (सं. 6385897एन अब जेसी-
663914डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार उमेश शंकर त्रिपाठी (सं. 6383080एच अब जेसी-
663915वाई), 01 मार्च 2006

हवलदार सुधीर बाबू (सं. 6385577वाई अब जेसी-663916एफ),
06 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नर्मदा प्रसाद जाकनोर (सं. 6385486पी अब जेसी-
663917के), 01 मार्च 2006

हवलदार राम लाल (सं. 6385787वाई अब जेसी-663918एम),
01 मार्च 2006

हवलदार लिमया श्रीधर शिवा राम (सं. 6384935एच अब जेसी-
663922पी), 03 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अनीरूधन के (सं. 6385367वाई अब जेसी-663923एक्स),
07 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 24 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरे राम प्रसाद साह (सं. 6385218एल अब जेसी-663924ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 6385892पी अब जेसी-663925एच),
01 मार्च 2006

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 6385900एच अब जेसी-
663926एल), 01 मार्च 2006

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 6382036एम अब जेसी-663927एन),
05 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महाभुज हसन (सं. 6385099ए अब जेसी-663928डब्ल्यू),
03 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शीश राम सैनी (सं. 13975664एल अब जेसी-663929वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार याद राम सिंह (सं. 6384455एच अब जेसी-663930एन),
05 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दामोदर सोयन (सं. 6375134के अब जेसी-663963वाई),
12 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के शास्त्रिया सन्तोष कुमार हरपाल सिंह (सं. 6384606डब्ल्यू
अब जेसी-663964एफ), 24 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कलित कुमार सिंह (सं. 6384632एक्स अब जेसी-
663965के), 03 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार लखेरा पवन कुमार देवकरन (सं. 6384920के अब जेसी-
663966एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार विरेन्द्रा सिंह (सं. 6385103एक्स अब जेसी-663967पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार दिनेश कुमार डी वी (सं. 6385374पी अब जेसी-
663968एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी/एस डी)

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 6378351एल अब जेसी-663931डब्ल्यू),
01 मार्च 2006

हवलदार सुखदेव राज (सं. 6378575ए अब जेसी-663932वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 6378654ए अब जेसी-663969ए), 01 अप्रैल
2006

हवलदार चूना राम धालार (सं. 6378655एच अब जेसी-663970पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मनोरन्जन महन्ता (सं. 6378248ए अब जेसी-663971एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अजिथ कुमार एम बी (सं. 6384519एच अब जेसी-
663972ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

हवलदार विनिथा चन्द्रन एन (सं. 6378532डब्ल्यू अब जेसी-
663973एच), 18 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रोमेश चन्द (सं. 14910969एन अब जेसी-663974एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार प्रभाकरन पी (सं. 14483443एफ अब जेसी-663975एन),
03 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार पवित्रन के वी (सं. 14242633पी अब जेसी-663976डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006

हवलदार हरी कुमार ए एम (सं. 14559674एन अब जेसी-
663977वाई), 01 अप्रैल 2006

कोर ऑफ सिगनल्स

स्थाई सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक कुमार कटियार (जेसी-372453ए), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-372456एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार विभूति दास (जेसी-372457 डब्ल्यू), 25 जनवरी 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान (जेसी-372458वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार दया नंद (जेसी-372459एफ), 04 जनवरी 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-372460डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार पोरेश गोगाई (जेसी-372461वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मंगल प्रसाद यादव (जेसी-372462एफ), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार सिसिर कुमार मन्ना (जेसी-372463के), 01 फरवरी
2006

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-372464एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-372465पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-372467ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार सतीश प्रसाद (जेसी-372468एच), 06 जुलाई 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
जुलाई 2006 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार रमेश आर (जेसी-372413वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार टी जे सिंह छत्री (जेसी-372416एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार अम्बिका संजय वंसत (जेसी-372425एन), 01 नवम्बर
2005

नायब सूबेदार रोहाने दुर्योधन एन (जेसी-372431एफ), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-372432के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार उन्नीकृष्णन नायर बी (जेसी-372434पी), 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-372435एक्स), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार मातबर सिंह (जेसी-372436ए), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार श्री निवासन के (जेसी-372437एम), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार एस एन एस राम (जेसी-372438एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार रतिराम खटिक (जेसी-372439एन), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार टी डी श्वर दत्तात्रेय (जेसी-372440एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-372626एम), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार मुगननथम जी डी (जेसी-372627पी), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार ए गोविन्दाराजन (जेसी-372628एक्स), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार व्ही सुब्रामणियम (जेसी-372629ए), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार पांडेय (जेसी-372630पी), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार विजय सिंह नेगी (जेसी-372631एक्स), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार डी ए नीलकान्था (जेसी-372632ए), 08 मई 2006
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धान सिंह (जेसी-372633एच), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार आनंद सिंह राजवर (जेसी-372634एल), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार एस ए एम मोहम्मद यासिन (जेसी-372635एन), 01 मई 2006

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-372636डब्ल्यू), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार ससी के व्ही (जेसी-372640वाई), 01 जुलाई 2006
 नायब सूबेदार चकोले रामचन्द्रा (जेसी-372642के), 01 जुलाई 2006
 नायब सूबेदार के हेमनाथा चेट्टी (जेसी-372647एच), 01 जुलाई 2006

स्थाई सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्दर कुमार (जेसी-373617एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-373618ए), 01 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार दिनेश्वर सिंह (जेसी-373619एच), 01 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार एम सदातुज जामा (जेसी-373620एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र पाटिल (जेसी-373621ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-373623एल), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार धरम चन्द (जेसी-373624एन), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार रमेशन नायर जे (जेसी-373910पी), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार दम्भु रामुलु (जेसी-373625डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सुधाकरन ए एन (जेसी-373662के), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुख देव सिंह (जेसी-373664एच), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार अर्जुन सिंह सोधा (जेसी-373665एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राम चन्द्र राउत (जेसी-373666ए), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार चुन्नी लाल (जेसी-373667एच), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार आर आर के कराडे (जेसी-373668एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-373669एन), 20 मार्च 2006
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)
 नायब सूबेदार देश राज शर्मा (जेसी-373670एच), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार जगदीश राम (जेसी-373696एक्स), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार कुन्ही रमन एम (जेसी-373697ए), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार लालन प्रसाद गुप्ता (जेसी-373698एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार आर के शर्मा (जेसी-373699एल), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-373701एक्स), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार अशोक कुमार पत्रा (जेसी-373702ए), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार अनूप सिंह झाला (जेसी-373703एच), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार के एस पठानिया (जेसी-373704एल), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-373705एन), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार बाकाड़े मधु (जेसी-373906एम), 01 जुलाई 2006
 नायब सूबेदार अशोक सिंह (जेसी-373916डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006
 नायब सूबेदार एन के मंडल (जेसी-373917वाई), 06 जुलाई 2006
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी एस रामचन्द्र (जेसी-373921एफ), 02 जुलाई 2006
 स्थाई सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार एस राजांगम (जेसी-373168एन), 03 मार्च 2005
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-373172डब्ल्यू), 07 मार्च 2005
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-373493एन), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार पी जी नारायणा राव (जेसी-373494 डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मेध नाथ (जेसी-373495वाई), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार विक्रमजीत (जेसी-373497के), 19 जनवरी 2006
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एम गोविन्दासामी (जेसी-373498एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार राना (जेसी-373499पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार पूरन चन्द बिहान (जेसी-373500वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जसवंत राय (जेसी-373501एफ), 07 जनवरी 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सिया राम (जेसी-373502के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार श्रीकान्ता टरडल (जेसी-373649ए), 08 मार्च 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-373651एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राधे श्याम सेन (जेसी-373652ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार एस चन्द्र सिंह (जेसी-375359एफ), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार प्रकासन के (जेसी-373627एफ), 01 जुलाई 2006

स्थाई सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह (जेसी-371350पी), 01 जनवरी 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह बेन (जेसी-372283एफ), 08 दिसम्बर 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम औतार पाल (जेसी-372332वाई), 09 दिसम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन (जेसी-372374एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार चन्द्र कान्त सरकार (जेसी-372376डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राजन के पी (जेसी-372377वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार धरम वीर (जेसी-372451पी), 02 फरवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रमा शंकर सिंह (जेसी-372448पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार काना राम गूजर (जेसी-372529पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-372531एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अम्बू मनी व्ही (जेसी-372561के), 14 फरवरी 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-372562एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जोगेन्द्र कुमार (जेसी-372545एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार नारायण चन्द्र डेका (जेसी-372572डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार केशव सिंह (जेसी-372573वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राजवीर मीना (जेसी-372570एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सदासिवन एन (जेसी-373357एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जे सो जयापथी (जेसी-372620एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार श्री राम शर्मा (जेसी-372621एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार साहब सिंह (जेसी-372690के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सूरज भान (जेसी-372691एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार कंचन सिंह विष्ट (जेसी-372694ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार रमेश दत्त (जेसी-372739पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार एस गौतम शेकु (जेसी-372742पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-372743एक्स), 01 मई 2006

नायब सूबेदार मारुति मंदर (जेसी-372818के), 01 मई 2006

नायब सूबेदार रमेशन जी (जेसी-372819एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार सूरत सिंह (जेसी-372820एफ), 01 मई 2006

नायब सूबेदार एस पी सिंह (जेसी-372821के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-372825ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार जी एस यादव (जेसी-372827एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-372828एन), 01 जुलाई 2006

एस. पी. शर्मा

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 490, दिनांक 7 सितम्बर 2006---राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मुख्तियार सिंह (जेसी-418398डब्ल्यू), 02 जून 2006 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वैकल्पिक ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कोकाटे रघुनाथ विश्वनाथ (जेसी-419762डब्ल्यू), 02 मई 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बजीन्दर सिंह (जेसी-419818एक्स), 01 मार्च 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वैकल्पिक ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चतुर सिंह (जेसी-419661एच), 18 जून 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (जेसी-419853ए), 22 मई 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वीर बहादुर (जेसी-419972डब्ल्यू), 02 मई 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नलावडे शिवाजी दिनकर (जेसी-419763वाई), 22 जून 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-419621एफ), 11 मई 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-419349ए), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-419088एक्स), 05 जून 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-419754एक्स), 10 जुलाई 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजू राम (जेसी-419641पी), 07 जुलाई 2006 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

कवचित्त कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार गोपाल चन्दर दास (सं. 1073466एफ अब जेसी-241629के),
 12 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार बी नेहरू (सं. 1074870एच अब जेसी-241675वाई),
 15 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

दफादार राम बालक यादव (सं. 1073540एक्स अब जेसी-241677के),
 12 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार मोरे दिलीप हनुमन्त (सं. 1073678एम अब जेसी-241678एम), 12 मार्च 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार महाराजा सिंह चौरसिया (सं. 1071040एफ अब जेसी-241697एक्स), 27 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार मोहन सिंह धन्डू (सं. 1069288एम अब जेसी-241702एक्स),
 02 मई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

दफादार पदम सिंह (सं. 1074803एक्स अब जेसी-241703ए),
 24 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश वर्मा (सं. 1071463पी अब जेसी-241704एच),
 15 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार रत्न सिंह (सं. 1081125एल अब जेसी-241705एल),
 09 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार एम राजा सेखरन (सं. 1070726डब्ल्यू अब जेसी-241708वाई), 21 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार सूखा राम (सं. 1076939ए अब जेसी-241707डब्ल्यू),
 17 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार बसंता के आर माली (सं. 1071778वाई अब जेसी-241709एफ), 27 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार नन्यहा पी सी (सं. 1078608एक्स अब जेसी-241710डब्ल्यू),
 18 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार राम दास सिंह (सं. 1072321के अब जेसी-241711वाई),
 06 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार रफीक अहमद (सं. 1074875एफ अब जेसी-241712एफ),
24 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार जगवीर सिंह (सं. 1075591के अब जेसी-241713के),
27 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार भूपिन्दर सिंह (सं. 1072341एक्स अब जेसी-241714एम),
06 अप्रैल 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार वाधूले बालू सोपना (सं. 1070782पी अब जेसी-
241716एक्स), 03 मई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1069627एफ अब जेसी-241717ए),
01 मई 2006 *

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 491, दिनांक 6 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना
सेना वायु रक्षा कोर
नायब सूबेदार के पद में

आरएचएम मंगतू राम (सं. 14404705एन अब जेसी-299253वाई),
11 मई 2005/27 अप्रैल 2005×

भारएचएम बी राजु (सं. 14391080एन अब जेसी-299254एफ),
इ 2005/27 अप्रैल 2005×

आरएचएम महेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 14408050के अब जेसी-
299255के), 16 मई 2005/27 अप्रैल 2005×

हवलदार श्यामजीत (सं. 14374124वाई अब जेसी-299256एम),
01 जुलाई 2005

हवलदार उरत चंद्र पुस्ती (सं. 14374616एक्स अब जेसी-299257पी),
01 जुलाई 2005

हवलदार बीदुबार लेंका (सं. 14374618एच अब जेसी-299258एक्स),
01 जुलाई 2005

बीएचएम बाबू कुट्टन पिल्लै (सं. 14383286एल अब जेसी-
299259ए), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005×

2—274 GI/2006

बीएचएम बालाचंद्रन बी (सं. 14490094एल अब जेसी-299260पी),
26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005×

बीएचएम उथीरापथी एस (सं. 14388349एम अब जेसी-
299261एक्स), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005×

बीएचएम सथीलन पी वी (सं. 14359500के अब जेसी-299262ए),
13 जून 2005/04 मई 2005×

बीएचएम अजय कुमार (सं. 14471580एन अब जेसी-299263एच),
20 जून 2005/08 मई 2005×

बीएचएम विश्वमित्र सिंह यादवा (सं. 14351574के अब जेसी-
299264एल), 18 जून 2005/26 मई 2005×

बीएचएम अशोक कुमार (सं. 14384240पी अब जेसी-299265एन),
06 जून 2005/01 जून 2005×

बीएचएम मदन सिंह (सं. 14359349के अब जेसी-299266डब्ल्यू),
04 जुलाई 2005/12 जून 2005×

बीएचएम सत्यपाल (सं. 14348176एक्स अब जेसी-299267वाई),
08 जुलाई 2005/20 जून 2005×

आरएचएम ए राधाकृष्णन (सं. 14361299एच अब जेसी-
299268एफ), 28 जून 2005/22 जून 2005×

बीएचएम प्रदीप ज्योति गोंगोई (सं. 14466127एम अब जेसी-
299269के), 01 जुलाई 2005

हवलदार पाले राम (सं. 14381264एन अब जेसी-299270वाई),
01 जुलाई 2005

धर्मशिक्षक सुधीर कुमार (नया अब जेसी-299271एफ), 28 जुलाई
2005

हवलदार राजकुमार शर्मा (सं. 14391724एक्स अब जेसी-299272के),
01 अगस्त 2005

हवलदार ईसरार खान (सं. 14396114पी अब जेसी-299273एम),
01 अगस्त 2005

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 14490995एक्स अब जेसी-299274पी),
01 अगस्त 2005/01 अक्टूबर 2004×

बीएचएम महाबीर सिंह (सं. 14363421एम अब जेसी-299275एक्स),
10 जून 2005/01 जून 2005×

बीएचएम रावेल सिंह (सं. 14368216पी अब जेसी-299276ए),
22 जुलाई 2005/20 जून 2005×

बीएचएम राजिन्द्र सिंह (सं. 14359649एल अब जेसी-299277एच),
11 जुलाई 2005/21 जून 2005×

आरएचएम रंजन एम पी (सं. 14373826एल अब जेसी-299278एल),
01 जुलाई 2005

बीएचएम वासुदेवन बी (सं. 14365150वाई अब जेसी-299279एन),
01 जुलाई 2005

हवलदार के एम मुनीराज (सं. 14387584वाई अब जेसी-299280एच),
09 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

आरएचएम अजया कुमार सी (सं. 14371792एक्स अब
जेसी-299281एल), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

बीएचएम कोम्मनुरी पाल (सं. 14354916एक्स अब
जेसी-299282एन), 12 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

बीएचएम करन सिंह यादव (सं. 14373214एन अब
जेसी-299283डब्ल्यू), 13 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार नारायणा सामी जी (सं. 14374144एम अब
जेसी-299284वाई), 29 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

बीएचएम सानापली बास्करा राव (सं. 14358627ए अब
जेसी-299285एफ), 01 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

हवलदार नागर सिंह बघेल (सं. 14372996एच अब जेसी-299286के),
09 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

बीएचएम चोमनी तिवारी (सं. 14361256एन अब जेसी-299287एन),
15 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

आरएचएम अजित लाल (सं. 14361057ए अब जेसी-299288पी),
17 अगस्त 2005/10 जुलाई 2005×

आरएचएम राम महेश (सं. 14353282ए अब जेसी-299289एक्स),
01 अगस्त 2005

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 14358669एम अब जेसी-299290एम),
03 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

बीएचएम मोहमद अफसरूल खान (सं. 14367927एच अब
जेसी-299291पी), 07 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम एम सिंह
अवर सचिव

सं. 492, दिनांक 11 सितम्बर 2006--थल सेना अनुदेश 15/79 व
उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

डीएस-12032पी नितिका, 21 मई 2005

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सं. 493, दिनांक 12 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले. जनरल (व समकक्ष) के रैंक में

एस मुखर्जी (एमआर-02753एल), 01 जून 2006

जी एस मिश्रा (एमआर-02658वाई), 01 जून 2006

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के रैंक में

वाई के शर्मा (एमआर-02988एक्स), 22 जनवरी 2006

(वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी
2006 से दी जाती है)

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से. (का.)

सं. 494, दिनांक 08 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एस एल)

कप्तान से मेजर

एस एल नं., नाम और आर्म

4522 ओम प्रकाश शर्मा, एस एल/क्यू एम

--16 दिसम्बर 2004

शिव राम वैरवा
उप निदेशक
एमएस 8सी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 495, दिनांक 12 सितम्बर, 2006:--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
01.	धन प्रकाश	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
02.	दिनेश सक्सेना	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
03.	जसमेर सिंह	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
04.	देव राज कौशिक	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
05.	भीम सेन	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
06.	संजय वालिया	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
07.	डब्ल्यू एल वसनिक	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
08.	जे सी दत्ता	ए डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
09.	नरेन सिंह	ए डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
10.	राम किशोर	ए डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
11.	ए के बंसल	ए डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
12.	माया राम	ए डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
13.	डी सेल्वाराजू	ए एस एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
14.	पी प्रकाश	ए एस एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
15.	पी रत्ना राजू	ए एस एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
16.	डी एस एस मूर्ती	ए एस एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
17.	सी रामा रॉव	ए एस एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
18.	एम आर पाणिग्राही	पी एक्स ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
19.	के चौधरी	पी एक्स ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
20.	आर डी कुंदू	पी एक्स ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
21.	उषा अरोड़ा	डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
22.	पी सी जाटव	डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
23.	नारायण सिंह	डी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
24.	वी सूर्यनारायणा	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
25.	मो. नैयमूर रहमान	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
26.	के अरुणा कुमारी	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
27.	सुधेश कुमार	एस ए एस ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
28.	ए के उम्ल	एस ए एस ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
29.	एन के सुड	एस ए एस ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
30.	ए एम ईशाक	एन एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
31.	वी आर हांडे	एन एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
32.	पी के नायक	आई टी आर	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
33.	ईली पॉल्जर	एफ आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
34.	सुरेश कुमार	लासटेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
35.	ए पप्पन	लासटेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
36.	आर एस सिरोही	लासटेक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
37.	उषा सरना	लासटेक	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
38.	एम के चतुर्वेदी	लासटेक	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
39.	एच एल मंडोलिया	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
40.	पी पी पुरी	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
41.	ए के पुरी	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
42.	बी आर अनेजा	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
43.	परवीन कुमार	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
44.	स्नेह लता	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
45.	एस के शर्मा	एस एस पी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
46.	आर सी सरीन	आर ए सी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
47.	बलबीर कौर	आर ए सी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
48.	एम एल शर्मा	डिसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
49.	बी डी जोशी	डिसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
50.	सी एम जोशी	डिसिडॉक	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
51.	रामपाल सिंह	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
52.	एम के चोपड़ा	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
53.	कृष्णा चुटानी	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
54.	गुरमीत कौर	ईनमास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
55.	अनिल डप्पल	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
56.	मिल्खी राम	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
57.	एस ओ बेडकर	एस ए जी	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
58.	एस कृष्णानी	डीपास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
59.	खेम चंद्रा	डीपास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
60.	सुदिप्ता चंदा	डीपास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
61.	टी डी कृष्णा रॉय	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
62.	के सत्यावती	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
63.	जी बेबी सरोजिनी	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
64.	के ए बालाकृष्णा	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
65.	डी सत्यानारायणा	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
66.	पी हरि प्रकाश	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
67.	एन वी बायम्मा	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
68.	एम अंसुया देवी	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
69.	जी झांसी लक्ष्मी	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
70.	यू संकुतला	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
71.	टी नरेन्द्र सिंह	डी एल आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

2. निम्नलिखित व्यक्तियों की एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
01.	एन देव दास	डी एल आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
02.	ए उमा देवी	डी एल आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
03.	पी उषा कुमारी	डी एल आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
04.	के वी नागेन्द्र	डी एल आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
05.	एस के चंद	आई टी आर	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
06.	ए के दास	आई टी आर	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
07.	बी डी आचार्य	आई टी आर	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
08.	ए एन पांडा	आई टी आर	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
09.	आर के टुडू	आई टी आर	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
10.	गरू राम	एफ आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
11.	आर पी शुक्ला	एस ए एस ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
12.	अश्विनी कुमार	एस ए एस ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
13.	अशोक कुमार सैनी	टी बी आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
14.	बबीता अग्रवाल	टी बी आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
15.	आर एन प्रसाद	टी बी आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
16.	मैराजूल हक	ए डी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
17.	के एम सोनी	ए डी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
18.	भुप सिंह यादव	ए डी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
19.	ए एस आर भूर्ती	ए एस एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
20.	पी वनेजा	ए एस एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
21.	संजीव कुमार	डीपास	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
22.	एस के भटनागर	एस एस पी एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
23.	मीणु शर्मा	एस ए जी	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
24.	जय सिंह	एस ए जी	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
25.	चमन लाल	ईनमास	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
26.	नाथु सिंह	ईनमास	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
27.	के साधियाभूर्ती	डेंसिडॉक	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
28.	नरेन्द्र कुमार	डेंसिडॉक	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

3. निम्नलिखित व्यक्ति की टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
01.	श्री मदन लाल	ए एस एल	टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500

बी बी शर्मा

उप निदेशक (कार्मिक-I)

सं. 496, दिनांक 06 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव, श्री रमेश चन्द्र शर्मा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरला मल्होत्रा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

वी सरस्वती
उप सचिव

सेना शाखा

सं. 497, दिनांक 12 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल टी.पी. अस्थाना (एमआर--03603एफ), एएमसी/पीसी--20 फरवरी 2005 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर एम. एस. वी. के. राजू (एमआर--03805एच), एएमसी/पीसी--28 फरवरी 2005 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर पी. के. राय (एमआर--03433एच), एएमसी/पीसी--31 मार्च 2005 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर पी. एन. सिंह (एमआर--03492पी), एएमसी/पीसी--31 जनवरी 2005 (अपराह्न)

ब्रिगेडियर आर. पी. मिश्रा (एमआर--2765ए), एएमसी/पीसी--31 जनवरी 2005 (अपराह्न)

कर्नल ए. के. सेठी (एमआर--02750एक्स), एएमसी/पीसी--31 जनवरी 2005 (अपराह्न)

कर्नल डी. एम. वी. बरूआ (एमआर--02974एक्स), एएमसी/पीसी--28 फरवरी 2005 (अपराह्न)

कर्नल वी. के. कानूगों (एमआर--03175एन), एएमसी/पीसी--31 मार्च 2005 (अपराह्न)

लै. कर्नल एस. के. मुद्गील (एमआर--04619वाई) एएमसी/पीसी--28 फरवरी 2005 (अपराह्न)

लै. कर्नल जी पी सिंह (एमआर--04647एम) एएमसी/पीसी--31 जनवरी 2005 (अपराह्न)

राजेश कामरान

ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th October 2006

No. 487, dated 6th September 2006.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Kiran Chadha, CSS (74), working as Director in the Ministry of Defence as Joint Secretary in the Department of Defence Production, Ministry of Defence, in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- w.e.f. 21st August 2006 (FN) for the balance period of her tenure of five years i.e. upto 3rd July 2007 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri B. Madana Mohan Reddy as Additional Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Shri M. M. Pallam Raju) on provisional basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. 29th January, 2006 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri P. L. Jalwa, CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Defence, to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad-hoc basis in the same Ministry w.e.f. 21st August 2006 (FN), until further orders in terms of DOP&T OM No. 5/8/2006-CS. I dated 10th August 2006.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad-hoc) is subject to following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V SARASWATHY
Dy. Secy.

AIR BRANCH

No. 488, dated 12th September 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers w.e.f. the date stated against their names who were granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Udai Pratap Singh (27948), Pravin Dikshit (27950), Amit Amarnath Dhopawkar (27951), B Vijayaraghavan (27952), Avinash Bhardwaj (27953), Chetan Sharma (27954), Saurabh Raghuvanshi (27955), Arun Kumar Singh (27956), Praveen R Sarathi (27957), Kunal Kumra (27958), Pawar Nishant Shantaram (27959), Bhaskar Aaruni (27960), Anil Yadav (27961), Survesh Dhir (27962), Muralidharan Charu Dhathan (27963), Shailendra Kumar Singh (27964), Kapil Rajput (27965), Sahil (27966), Jagdeep Singh (27967), N Abhishek (27968), Arun Deswal

(27969), Yasir Faruqi (27970), Akshay Kumar Vij (27971), Shailendra Singh (27972), Vinay Kumar (27973), Manish Umesh Sharma (27975), Manish Kumar Singh (27976), Naveen Kumar Tiwari (27977), Gurinder Singh (27978), Santosh Kumar Mishra (27979), Mahipal Singh Sangwan (27980), Abhinandan Varthaman (27981), Amit Sharma (27982), Shishir Arora (27983), Suhas Pralhadrao Gore (27985), Gaurav Chaturvedi (27986), Varun Singh (27987), Bibhu Dutta SK Jenamani (27988), Ashish Kumar Dogra (27989), Kshetrimayum Shyamananda Singh (27990), Vivek Mittal (27991), Rohit Rai (27992), Rahul Sharma (27993), M Shree Vighnesh (27994), Karan Arha (27995), Aditya Singh Pawar (27996), Ankur Dagar (27997), Jaspreet Singh Sandhu (27998), Arvind Kumar Repswal (27999), Ankur Saxena (28000), Abhimanyu Singh (28002), Nitin Nagarkoti (28003), Avinash Mahapatra (28004), Amit Ranjan (28005), Sidharth Agarwal (28006), Rudra Chattopadhyay (28007), Harshit Sinha (28009), Divesh Pankaj (28010), TJ Ranjith (28011), Yakshendra Singh Panwar (28012), Sandeep Kumar Pradhan (28013), Janamjeet Singh Virdi (28015), Amit Vikas Malpure (28016), Lakshveer (28017), Abhimanyu Singh (28019), Anshul Dave (28022), Rajat Devendra Gupta (28024), Khairnar Mahesh Pradip (28026), Sameep Nijhawan (28028), Pramod Kumar N (28029), Sharad Sirohi (28030), Rahul Verma (28031), Jasmeet Singh (28032), Sushil Kumar Yadav (28034), Rajeev dogra (28035), Archit Kapur (28036), w.e.f. 19 Jun 2004.

S SRIVASTAVA
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS
(SUPPLY)

No. 489, dated 7th September 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Sub : SKT

Nb Sub Jaipal Singh (JC-641713X), 06 Aug 2005*

*(Grd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vishwanath Singh (JC-215485P), 01 Sep 1997

Nb Sub A Ravindran (JC-641945W), 01 Nov 2005

Nb Sub Sinde Sudhakar Rang Rao (JC-641958N), 01 Dec 2005

Nb Sub Anup Kumar (JC-642095K), 27 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Subhash Chandra Sharma (JC-642097P),
23 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jaibir Singh (JC-642098X), 02 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohan Dasan G (JC-642279H), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dinesh Pratap Singh (JC-642109Y),
13 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sudhwinder Singh (JC-642110N), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raveedran MK (JC-642112Y), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ved Prakash (JC-642173W), 01 Mar 2006

Nb Sub Chandra Mani Mohapatra (JC-642175F),
01 Mar 2006

Nb Sub Rajinder Singh (JC-642176K), 01 Mar 2006

Nb Sub Romesh Lal (JC-642179X), 07 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-642297L), 01 Mar 2006

Nb Sub Yogendra Singh (JC-642101M), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umesh Prasad Singh (JC-642102P),
09 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Byasadev Padhi (JC-642106L), 18 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umesh Prasad (JC-642107N), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ganesh Bahadur Lama (JC-642113F),
09 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Das (JC-642178P), 01 Mar 2006

Nb Sub Rajendra Prasad Sharma (JC-642181P),
07 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Krishna Kumar Kairi (JC-642294X),
05 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sujan Singh (JC-642283L), 01 Mar 2006

Nb Sub Remsan TK (JC-642086H), 18 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar (JC-642284N), 29 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Charan Singh (JC-642281A), 07 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nafey Singh (JC-642295A), 14 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shree Bhagwan Singh (JC-641695A), 01 Aug
2004

To be Sub : Personal Assistant

Nb Sub Ramesh Singh (JC-642872F), 01 Mar 2006

Nb Sub Nand Kumar Singh (JC-642815A), 01 Mar 2006

Nb Sub Nigar Qureshi (JC-642813P), 01 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bachittar Singh (JC-642818N), 01 Apr 2006

Nb Sub Hrudaya Chandra Behra (JC-642819W),
01 Apr 2006

Nb Sub Unnikrishnan Arennil (JC-642820L),
01 Apr 2006

Nb Sub Surjit Singh (JC-642821N), 01 Apr 2006

To be Sub : Clk (GD/SD)

Nb Sub Tarun Kanti Chatterjee (JC-641509Y),
06 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 06 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharambir (JC-642392X), 30 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mehar Chand (JC-642394H), 01 Apr 2006

Nb Sub Chanchal Kumar Ghosh (JC-642395L),
01 Apr 2006

Nb Sub Baldev Sharma (JC-642393A), 01 Apr 2006

Nb Sub Subash Chander (JC-642397W), 10 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub : SKT

Hav Vijay Kumar Pandey (No. 6648893Y now JC-663759A), 01 May 1995

Hav Pradip Saikia (No. 6376560K now JC-663897F),
28 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhisham Singh (No. 6379948A now JC-663898K),
21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Pal (No. 6383300F now JC-663899M),
21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raja Sekharan Pillai (No. 6383308N now JC-663900W), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar (No. 6384636N now JC-663901Y),
26 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bishun Singh (No. 6384381Y now JC-663902F), 01 Jan 2006

Hav Basant Ballabh (No. 6385446N now JC-663903K),
27 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav MR Krishna Murthy (No. 6386030H now JC-663904M), 24 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Syed Bhainoor Ali (No. 6383390N now JC-663905P), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

3—274 GI/2006

Hav Muraleedharan B (No. 6384997M now JC-663906X), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kamlesh Kumar (No. 6385800X now JC-663907A),
22 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 6385847H now JC-663908H),
27 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Subhas Chander (No. 6384181H now JC-663909L),
22 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Surender Kumar (No. 6385341K now JC-663910A),
02 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Takale Shivaji Govind (No. 6382926M now JC-663911H), 25 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Kumar Patwa (No. 6385447W now JC-663912L), 23 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhargande Dilip Bhiwan (No. 6385510A now JC-663913N), 01 Mar 2006

Hav Arun Kumar Tiwari (No. 6385897N now JC-663914W), 01 Mar 2006

Hav Umesh Shankar Tripathi (No. 6383080H now JC-663915Y), 01 Mar 2006

Hav Sudhir Babu (No. 6385577Y now JC-663916F),
06 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Narmada Prasad Jaknore (No. 6385486P now JC-663917K), 01 Mar 2006

Hav Ram Lal (No. 6385787Y now JC-663918M),
01 Mar 2006

Hav Limaya Sridhar Shiva Ram (No. 6384935H now JC-663922P), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Aniruddhan K (No. 6385367Y now JC-663923X),
07 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hare Ram Prasad Sah (No. 6385218L now JC-663924A), 01 Jan 2006

Hav Subhash Chandra (No. 6385892P now JC-663925H),
01 Mar 2006

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 6385900H now JC-663926L), 01 Mar 2006

Hav Bijender Singh (No. 6382036M now JC-663927N),
05 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahaphuj Hasan (No. 6385099A now JC-663928W), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Shish Ram Saini (No. 13975664L now JC-663929Y), 01 Mar 2006

Hav Yadram Singh (No. 6384455H now JC-663930N),
05 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Damodar Swain (No. 6375134K now JC-663963Y),
12 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav K. Shatriya Sontosh Kumar Harpal Singh (No. 6384606W now JC-663964F), 24 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kalit Kumar Singh (No. 6384632X now JC-663965K), 03 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhera Pawan Kumar Devkaran (No. 6384920K now JC-663966M), 01 Apr 2006

Hav Virendra Singh (No. 6385103X now JC-663967P),
01 Apr 2006

Hav Dinesh Kumar DV (No. 6385374P now JC-663968X), 01 Apr 2006

To be Nb Sub Clk (GD/SD)

Hav Kulwant Singh (No. 6378351L now JC-663931W),
01 Mar 2006

Hav Sukhdev Raj (No. 6378575A now JC-663932Y),
01 Mar 2006

Hav Prem Singh (No. 6378654A now JC-663969A),
01 Apr 2006

Hav Chuna Ram Thalor (No. 6378655H now JC-663970P), 01 Apr 2006

Hav Manoranjan Mohanty (No. 6378248A now JC-663971X), 01 Apr 2006

Hav Ajith Kumar MB (No. 6384519H now JC-663972A), 01 Apr 2006

To be Nb Sub : Personal Assistant

Hav Vineetha Candran N (No. 6378532W now JC-663973H), 18 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Romesh Chand (No. 14910969N now JC-663974L),
01 Apr 2006

Hav Prabhakaran P (No. 14483443F now JC-663975N),
03 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pavithran KV (No. 14242633P now JC-663976W),
01 Apr 2006

Hav Hari Kumar AM (No. 14559674N now JC-663977Y), 01 Apr 2006

CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Sub (Y of S)

Nb Sub Ashok Kumar Ketiyar (JC-372453A),
01 Nov 2005

Nb Sub Ram Nath (JC-372456N), 01 Jan 2006

Nb Sub Bibhuti Das (JC-372457W), 25 Jan 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub MD Irfaq (JC-372458Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Daya Nand (JC-372459F), 04 Jan 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Kumar (JC-372460W), 01 Jan 2006

Nb Sub Poresh Gogoi (JC-372461Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Mangal Prasad Yadav (JC-372462F),
01 Feb 2006

Nb Sub Sisir Kumar Manna (JC-372463K), 01 Feb 2006

Nb Sub Jaipal Singh (JC-372464M), 01 Apr 2006

Nb Sub Ram Singh (JC-372465P), 01 Apr 2006

Nb Sub Satbir Singh (JC-372467A), 01 Jul 2006

Nb Sub Satish Prasad (JC-372468H), 06 Jul 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Sub (F of S)

Nb Sub Ramesh R (JC-372413Y), 01 Nov 2005
 Nb Sub TJ Singh Kshathri (JC-372416M), 01 Nov 2005
 Nb Sub Ambike Sanjay Vasant (JC-372425N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Rohane Duryodhan N (JC-372431F), 01 Dec 2005
 Nb Sub Arvind Kumar (JC-372432K), 01 Jan 2006
 Nb Sub Unnikrishnan Nair B (JC-372434P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Surender Kumar (JC-372435X), 01 Jan 2006
 Nb Sub Matber Singh (JC-372436A), 01 Jan 2006
 Nb Sub Sri Nivasan K (JC-372437M), 01 Feb 2006
 Nb Sub SNS Ram (JC-372438L), 01 Feb 2006
 Nb Sub Ratiram Khathik (JC-372439N), 01 Mar 2006
 Nb Sub TD Shwar Dattatraya (JC-372440H), 01 Mar 2006
 Nb Sub Rajesh Kumar (JC-372626M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Muruganantham GD (JC-372627P), 01 Apr 2006
 Nb Sub A Govindarajan (JC-372628X), 01 Apr 2006
 Nb Sub V Subramanyam (JC-372629A), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ravindra Kumar Pandey (JC-372630P), 01 May 2006
 Nb Sub Vijay Singh Negi (JC-372631X), 01 May 2006
 Nb Sub DA Nilkantha (JC-372632A), 08 May 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Dhan Singh (JC-372633H), 01 May 2006
 Nb Sub Anand Singh Rajwar (JC-372634L), 01 May 2006
 Nb Sub SAM MD Yasin (JC-372635N), 01 May 2006
 Nb Sub Mahender Singh (JC-372636W), 01 Jun 2006
 Nb Sub Sasi KV (JC-372640Y), 01 Jul 2006
 Nb Sub Chakole Ramchandra (JC-372642K), 01 Jul 2006
 Nb Sub K Hemanadha Chetty (JC-372647H), 01 Jul 2006

To be Substantive Sub (OP Ciph)

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-373617X), 01 Dec 2005
 Nb Sub Jagvir Singh (JC-373618A), 01 Dec 2005
 Nb Sub Dineshwar Singh (JC-373619H), 01 Dec 2005
 Nb Sub M Saadatuz Zama (JC-373620X), 01 Dec 2005

Nb Sub Subhash Chand Patil (JC-373621A), 01 Jan 2006

Nb Sub Dharam Singh (JC-373623L), 01 Jan 2006
 Nb Sub Dharam Chand (JC-373624N), 01 Jan 2006
 Nb Sub Ramesan Nair J (JC-373910P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Dummu Ramulu (JC-373625W), 01 Feb 2006
 Nb Sub Sudhakaran AN (JC-373662K), 01 Feb 2006
 Nb Sub Sukh Dev Singh (JC-373664H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Arjun Singh Sodha (JC-373665X), 01 Feb 2006

Nb Sub Rama Chandra Rout (JC-373666A), 01 Feb 2006

Nb Sub Chunni Lal (JC-373667H), 01 Mar 2006
 Nb Sub RRK Karade (JC-373668L), 01 Mar 2006
 Nb Sub Rajender Singh (JC-373669N), 20 Mar 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Des Raj Sharma (JC-373670H), 01 Apr 2006
 Nb Sub Jagdish Ram (JC-373696X), 01 Apr 2006
 Nb Sub Kunhi Raman M (JC-373697A), 01 Apr 2006
 Nb Sub Lalan Prasad Gupta (JC-373698H), 01 Apr 2006
 Nb Sub RK Sharma (JC-373699L), 01 Apr 2006
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-373701X), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ashok Kumar Patra (JC-373702A), 01 May 2006

Nb Sub Anoop Singh Jhala (JC-373703H), 01 May 2006
 Nb Sub KS Pathania (JC-373704L), 01 May 2006
 Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-373705N), 01 Jun 2006
 Nb Sub Bokade Madhu (JC-373906M), 01 Jul 2006
 Nb Sub Ashok Singh (JC-373916W), 01 Jul 2006
 Nb Sub NK Mandal (JC-373917Y), 06 Jul 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub wef 02 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub PS Ramchandra (JC-373921F), 02 Jul 2006

To be Substantive Sub (O P Spec)

Nb Sub S Rajangam (JC-373168N), 03 Mar 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Subhash Chand (JC-373172W), 07 Mar 2005
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Shyam Singh (JC-373493N), 01 Oct 2005

Nb Sub PG Narayana Rao (JC-373494W), 01 Jan 2006
 Nb Sub Megh Nath (JC-373495Y), 01 Jan 2006
 Nb Sub Vikramjit (JC-373497K), 19 Jan 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub M Govindasamy (JC-373498M), 01 Jan 2006
 Nb Sub Rajendra Kumar Rana (JC-373499P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Puran Chand Bihan (JC-373500Y), 01 Jan 2006
 Nb Sub Jaswant Rai (JC-373501F), 07 Jan 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Siya Ram (JC-373502K), 01 Feb 2006
 Nb Sub Shrikant Terdal (JC-373649A), 08 Mar 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-373651X), 01 Apr 2006
 Nb Sub Radhe Shyam Sain (JC-373652A), 01 Apr 2006
 Nb Sub S Chandra Singh (JC-375359F), 01 Jul 2006
 Nb Sub Prakasan K (JC-373627F), 01 Jul 2006

To be Substantive Subedar (Clk GD)

Nb Sub Parminder Singh (JC-371350P), 01 Jan 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Gurdev Singh Bains (JC-372283F), 08 Dec 2005
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ram Autar Pal (JC-372332Y), 09 Dec 2005
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Chandra Mohan (JC-372374L), 01 Dec 2005
 Nb Sub Chandra Kanta Sarkar (JC-372376W), 01 Dec 2005
 Nb Sub Rajan KP (JC-372377Y), 01 Dec 2005
 Nb Sub Dharam Vir (JC-372451P), 02 Jan 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Rama Shankar Singh (JC-372448P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Kana Ram Gujar (JC-372529P), 01 Jan 2006
 Nb Sub Jagdish Singh (JC-372531M), 01 Feb 2006

Nb Sub Ambu Money V (JC-372561K), 14 Feb 2006
 (Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Hawa Singh (JC-372562M), 01 Feb 2006
 Nb Sub Joginder Kumar (JC-372545M), 01 Feb 2006
 Nb Sub Narayan Chandra Deka (JC-372572W), 01 Feb 2006
 Nb Sub Keshav Singh (JC-372573Y), 01 Feb 2006
 Nb Sub Rajveer Meena (JC-372570L), 01 Feb 2006
 Nb Sub Sadasivan N (JC-373357X), 01 Feb 2006
 Nb Sub J C Jayapathi (JC-372620L), 01 Mar 2006
 Nb Sub Sri Ram Sharma (JC-372621N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Sahab Singh (JC-372690K), 01 Mar 2006
 Nb Sub Suraj Bhan (JC-372691M), 01 Mar 2006
 Nb Sub Kanchan Singh Bisht (JC-372694A), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ramesh Dutt (JC-372739P), 01 Apr 2006
 Nb Sub S Gautam Sheku (JC-372742P), 01 Apr 2006
 Nb Sub Kartar Singh (JC-372743X), 01 May 2006
 Nb Sub Maruti Madar (JC-372818K), 01 May 2006
 Nb Sub Rameshan G (JC-372819M), 01 May 2006
 Nb Sub Surat Singh (JC-372820F), 01 May 2006
 Nb Sub SP Singh (JC-372821K), 01 Jun 2006
 Nb Sub Avtar Singh (JC-372825A), 01 Jul 2006
 Nb Sub GS Yadav (JC-372827L), 01 Jul 2006
 Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-372828N), 01 Jul 2006

S. P. SHARMA
 Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 490, dated 7th September 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Infantry

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Mukhtiar Singh (JC-418398W), 02 Jun 2006*

*(Granted notional seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Kokate Rabhunath Vishavnath (JC-419762W), 02 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bajinder Singh (JC-419818X), 01 Mar 2006*

*(Granted notional seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chatur Singh (JC-419661H), 18 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pritam Singh (JC-419853A), 22 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bir Bahadur (JC-419972W), 02 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nalawade Shivaji Dinkar (JC-419763Y), 22 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ishwar Singh (JC-419621F), 11 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 12 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijay Pal Singh (JC-419349A), 01 May 2006

Nb Sub Jai Prakash Singh (JC-419088X), 05 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satyaveer Singh (JC-419754X), 10 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raju Ram (JC-419641P), 07 Jul 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

(ARMOURED CORPS)

To be Nb Ris

DFR Gopal Chander Das (No. 01073466F now JC-241629K), 12 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR B Nehru (No. 01074870H now JC-241675Y), 15 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

DFR Ram Balak Yadav (No. 01073540X now JC-241677K), 12 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR More Dilip Hanumant (No. 01073678M now JC-241678M), 12 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Maharaja Singh Chorasia (No. 01071040F now JC-241697X), 27 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Mohan Singh Dhandhu (No. 01069288M now JC-241702X), 02 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

DFR Padam Singh (No. 01074803X now JC-241703A), 24 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Om Prakash Verma (No. 01071463P now JC-241704H), 15 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Rattan Singh (No. 01081125L now JC-241705L), 09 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Sukha Ram (No. 01076939A now JC-241707W), 17 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

DFR M Raja Sekaran (No. 01070726W now JC-241708Y), 21 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Basanta KR Mali (No. 01071778Y now JC-241709F), 27 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Nanaiah PC (No. 01078608X now JC-241710W), 18 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Ram Das Singh (No. 01072321K now JC-241711Y), 06 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Rafik Ahmad (No. 01074875F now JC-241712F), 24 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

DFR Jasvir Singh (No. 01075591K now JC-241713K),
27 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allowances)

DFR Bhupinder Singh (No. 01072341X now JC-
241714M), 06 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006
without effect on pay and allowances)

DFR Waghule Balu Sopana (No. 01070782P now JC-
241716X), 03 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006
without effect on pay and allowances)

DFR Kuldip Singh (No. 01069627F now JC-241717A),
01 May 2006

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 491, dated 6th September 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

RHM Mangtu Ram (No. 14404705N now JC-299253Y),
11 May 2005/27 Apr 2005*

RHM B Raju (No. 14391080N now JC-299254F),
09 May 2005/27 Apr 2005*

RHM Mahendra Kumar Sharma (No. 14408050K now
JC-299255K), 16 May 2005/27 Apr 2005*

Hav Shyamjit (No. 14374124Y now JC-299256M),
01 Jul 2005

Hav Sarat Chandra Prusty (No. 14374616X now JC-
299257P), 01 Jul 2005

Hav Biprabar Lenka (No. 14374618H now JC-299258X),
01 Jul 2005

BHM Babu Kuttan Pillai (No. 14383286L now JC-
299259A), 26 Apr 2005/01 Apr 2005*

BHM Balachandran B (No. 14490094L now JC-
299260P), 26 Apr 2005/01 Apr 2005*

BHM Uthirapathy S (No. 14388349M now JC-
299261X), 26 Apr 2005/01 Apr 2005*

BHM Satheesan PV (No. 14359500K now JC-299262A),
13 Jun 2005/04 May 2005*

BHM Ajay Kumar (No. 14471580N now JC-299263H),
20 Jun 2005/08 May 2005*

BHM Vishwamitra Singh Yadava (No. 14351574K now
JC-299264L), 18 Jun 2005/26 May 2005*

BHM Ashok Kumar (No. 14384240P now JC-299265N),
06 Jun 2005/01 Jun 2005*

BHM Madan Singh (No. 14359349K now JC-
299266W), 04 Jul 2005/12 Jun 2005*

BHM Satya Pal (No. 14348176X now JC-299267Y),
08 Jul 2005/20 Jun 2005*

RHM A Radhakrishnan (No. 14361299H now JC-
299268F), 28 Jun 2005/22 Jun 2005*

BHM Pradip Jyoti Gogoi (No. 14466127M now JC-
299269K), 01 Jul 2005

Hav Pale Ram (No. 14381264N now JC-299270Y),
01 Jul 2005

RT Sudhir Kumar (NYA now JC-299271F), 28 Jul 2005

Hav Raj Kumar Sharma (No. 14391724X now JC-
299272K), 01 Aug 2005

Hav Israr Khan (No. 14396114P now JC-299273M),
01 Aug 2005

Hav Dilbagh Singh (No. 14490995X now JC-299274P),
01 Aug 2005/01 Oct 2004*

BHM Mahabir Singh (No. 14363421M now JC-
299275X), 10 Jun 2005/01 Jun 2005*

BHM Rawail Singh (No. 14368216P now JC-299276A),
22 Jul 2005/20 Jun 2005*

BHM Rajinder Singh (No. 14359649L now JC-
299277H), 11 Jul 2005/21 Jun 2005*

RHM Ranjan MP (No. 14373826L now JC-299278L),
01 Jul 2005

BHM Vasudevan B (No. 14365150Y now JC-299279N),
01 Jul 2005

Hav KM Muniraj (No. 14387584Y now JC-299280H),
09 Jul 2005/01 Jul 2005*

RHM Ajaya Kumar C (No. 14371792X now JC-
299281L), 12 Jul 2005/01 Jul 2005*

BHM Kommunuri Paul (No. 14354916X now JC-
299282N), 12 Jul 2005/01 Jul 2005*

BHM Karan Singh Yadav (No. 14373214N now JC-
299283W), 13 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Narayana Samy G (No. 14374144M now JC-
299284Y), 29 Jul 2005/01 Jul 2005*

BHM Sanapali Baskara Rao (No. 14358627A now JC-
299285F), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Hav Nagar Singh Baghel (No. 14372996H now JC-
299286K), 09 Aug 2005/01 Jul 2005*

BHM Chandra Mani Tiwari (No. 14361256N now JC-
299287M), 15 Aug 2005/01 Jul 2005*

RHM Ajit Lal (No. 14361057A now JC-299288P)
17 Aug 2005/10 Jul 2005*

RHM Ram Mahesh (No. 14353282A now JC-299289X),
01 Aug 2005

Hav Trilok Singh (No. 14358669M now JC-299290M),
03 Aug 2005/01 Aug 2005*

BHM MD Afsarul Khan (No. 14367927H now JC-
299291P), 07 Aug 2005/01 Aug 2005*

*(Gtd ante-date seniority wef)

M. M. SINGH
Under Secy.

No. 492, dated 11th September 2006.—The President is
pleased to make the following promotion under AI 15/79,
as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Maj

DS-12032P Nitika, 21 May 2005

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

No. 493, dated 12th September 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

S Mukherjee (MR-02753L), 01 Jun 2006

GS Misra (MR-02658Y), 01 Jun 2006

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

YK Sharma (MR-02988X), 22 Jan 2006 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01 Jan
2006.

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS(P)

No. 494, dated 8th September 2006.—The President is
pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

Sl. No., Name & Arm

4522 Om Prakash Sharma, SL/QM

—16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA
Dy Dir
MS-8-C

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 495, dated 12th September 2006.—The President is
pleased to promote the following officers from their existing
grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2005 (FN) as mentioned
against each :—

Name	Lab/ Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5
(S/Shri/Smt.)				
Dhan Prakash	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Dinesh Saxena	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Jasmer Singh	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Dev Raj Kaushik	TBRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Bhim Sain	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Sanjay Walia	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
WL Wasnik	TBRL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
JC Dutta	ADRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Narain Singh	ADRDE	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Ram Kishor	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
AK Bansal	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	-do-
Maya Ram	ADRDE	TO 'A'	TO 'B'	-do-
D Selvaraju	ASL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
P Prakash	ASL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
P Ratna Raju	ASL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
DSS Murthy	ASL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
C Rama Rao	ASL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
MR Panigrahi	PXE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
K Choudhury	PXE	TO 'B'	TO 'C'	-do-
RD Kundu	PXE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Usha Arora	DRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
PC Jatav	DRDE	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Narayan Singh	DRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
V Suryanarayana	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Mohd Naimur Rehman	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
K Aruna Kumari	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Sudesh Kumar	SASE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
AK Uppal	SASE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
NK Sood	SASE	TO 'A'	TO 'B'	-do-
AM Ishack	NMRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
VR Hande	NMRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
PK Nayak	ITR	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Eli Paljor	FRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Suresh Kumar	LASTEC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

1	2	3	4	5
(S/Shri/Smt.)				
A Pappan	LASTEC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
RS Sirohi	LASTEC	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Usha Sarna	LASTEC	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
MK Chaturvedi	LASTEC	TO 'A'	TO 'B'	-do-
HL Mandolia	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
PP Puri	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
AK Puri	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
BR Aneja	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Parveen Kumar	SSPL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Sneh Lata	SSPL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
SK Sharma	SSPL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
RC Sarin	RAC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Balbir Kaur	RAC	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
ML Sharma	DESIDOC	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
BD Joshi	DESIDOC	TO 'B'	TO 'C'	-do-
CM Joshi	DESIDOC	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Rampal Singh	INMAS	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
MK Chopra	INMAS	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Krishna Chuttani	INMAS	TO 'B'	TO 'C'	-do-
Gurmeet Kaur	INMAS	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Anil Uppal	SAG	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Milkhi Ram	SAG	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
SO Bedekar	SAG	TO 'A'	TO 'B'	-do-
S Krishnani	DIPAS	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
Khem Chandra	DIPAS	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
Sudipta Chandra	DIPAS	TO 'A'	TO 'B'	-do-
TD Krishna Rao	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
K Satyavati	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
G Baby Sarojini	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
KA Balakrishna	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
D Satyanarayana	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
P Hari Prakash	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
NV Bayamma	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
M Anasuya Devi	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
G Jhansi Lakshmi	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	-do-
U Sakuntala	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
T Narender Singh	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	-do-
N Deva Das	DLRL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
A Uma Devi	DLRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
P Usha Kumari	DLRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
KV Nagendra	DLRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-

1	2	3	4	5
(S/Shri/Smt.)				
SK Chand	ITR	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
AK Das	ITR	STA 'C'	TO 'A'	-do-
BD Acharya	ITR	STA 'C'	TO 'A'	-do-
AN Panda	ITR	STA 'C'	TO 'A'	-do-
RK Tudu	ITR	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Garu Ram	FRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
RP Shukla	SASE	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Ashwani Kumar	SASE	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Ashok Kumar Saini	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Babita Agarwal	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
RN Prasad	TBRL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Mairajul Haque	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	-do-
KM Soni	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Bhup Singh Yadav	ADRDE	STA 'C'	TO 'A'	-do-
ASR Murthy	ASL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
P Vanaja	ASL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Sanjeev Kumar	DIPAS	STA 'C'	TO 'A'	-do-
SK Bhatnagar	SSPL	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Meenu Sharma	SAG	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Jai Singh	SAG	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Chaman Lal	INMAS	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Nathu Singh	INMAS	STA 'C'	TO 'A'	-do-
K Sathiyamoorthy	DESIDOC	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Narender Kumar	DESIDOC	STA 'C'	TO 'A'	-do-
Madan Lal	ASL	TA 'C'	TO	-do-

B. B. SHARMA
Dy. Dir. (Pers-1)

No. 496, dated 6th September 2006.—The President is pleased to retire Shri Ramesh Chandra Sharma, Under Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 August 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Smt. Sarla Malhotra, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 August 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

ARMY BRANCH

No. 497, Dated 12th September 2006.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen DP Asthana (MR-03603F)/AMC/PC—28 Feb 2005 (AN)

Brig MSVK Raju (MR-03805H)/AMC/PC—28 Feb 2005 (AN)

Brig PK Roy (MR-03433H)/AMC/PC—31 Mar 2005 (AN)

Brig PN Singh (MR-03492P)/AMC/PC—31 Jan 2005 (AN)

Brig RP Mishra (MR-02765A)/AMC/PC—31 Jan 2005 (AN)

Col AK Sethi (MR-02750X)/AMC/PC—31 Mar 2005 (AN)

Col DMB Barua (MR-02974X)/AMC/PC—28 Feb 2005 (AN)

Col BK Kanugo (MR-03175N)/AMC/PC—31 Mar 2005 (AN)

Lt Col SK Mudgill (MR-04619Y)/AMC/PC—28 Feb 2005 (AN)

Lt Col GP Singh (MR-04647L)/AMC/PC—31 Jan 2005 (AN)

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAFMS (Pers)